





IBPS CLERK / PO | RRB CLERK / PO



ENGLISH

25 DAYS PAPER

PAPER-10

LIVE | 09:00 AM





UPCOMING ONLINE BATCHES

July 2022

06 July 2022

05:30 PM to 07:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

03:00 PM to 05:00 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

13 July 2022

08:00 AM to 10:00 AM

BANK ONLINE LIVE CLASS

07:30 PM to 09:30 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

20 July 2022

01:00 PM to 03:00 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

10:30 AM to 12:30 PM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

27 July 2022

10:30 AM to 12:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

08:00 AM to 10:00 AM

SSC ONLINE LIVE CLASS

BILINGUAL

06 July 2022

07:30 PM to 09:30 PM

BANK ONLINE LIVE CLASS

ENGLISH MEDIUM



Mohit.. 1 day ago

Thank-you Sir for this Wonderful Class Session of today's.. 🙌👍😊

And

My Answer for today's homework is like- Option B- 91020.

Logic is $9104 * 10 - 20 = 91020$...

Read more

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



debasish chakraborty 1 day ago

Homework : 91020

Thank you mam. Awesome session.

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



aditya bunkar 1 day ago

Answer for today's homework *2-4, *4-8, *6-12, *8-16, *10-20

Thanks sir 😊

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



Rityaj Seth 1 day ago

Homework Answer

Option B 91020

👍 🗨️ REPLY



Nitika Gupta 1 day ago

Homework

Option b 91020

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



Aarti Prajapati 19 hours ago

Option B - 91020

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



Debajit Mondal 1 day ago

91020

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)



Nitika Kamboj 1 day ago

Hw

91020

👍 🗨️ REPLY

▼ [View reply from Mahendras : Online Videos For Govt. Exams](#)

What should come at place of the question mark (?) in the following number series ?

Q.11:- 27 , 50 , 192 , 1140 , 9104 , ?

(A) 90400

(B) 91020

(C) 92040

(D) 94060

(E) 96080



What should come at place of the question mark (?) in the following number series ?

Q.12:- 4 , 7 , 13 , 23 , 38 , 59 , ?

- (A)72 (B)80 (C)87 (D)95 (E) None of these



What should come at place of the question mark (?) in the following number series ?

Q.13:- 6 , 11 , 32 , 111 , 464 , ?

(A) 2345

(B) 2475

(C) 2525

(D) 3050

(E) 2640



What should come at place of the question mark (?) in the following number series ?

Q.14:- 2, 12, 36, 80, ?, 252, 392

- (A)80 (B)100 (C)120 (D)150 (E)None of these



What should come at place of the question mark (?) in the following number series ?

Q.15:- 2, 6, 33, 49, 174, 210, ?

(A)275

(B)387

(C)464

(D)553

(E)495



0:30

Direction (1–5): In each question two equations numbered (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and mark appropriate answer.

- (a) If $x = y$ or no relation can be established
- (b) If $x > y$
- (c) If $x < y$
- (d) If $x \geq y$
- (e) If $x \leq y$

Q.16 :- I. $x^2 - 50x + 589 = 0$

II. $y^2 - 19y - 416 = 0$

Q.17 :- I. $6x^2 + 9x + 3 = 0$

II. $8y^2 - 13y + 5 = 0$

Q.18 :- I. $20x^2 - x - 12 = 0$

II. $20y^2 + 27y + 9 = 0$

Q.19 :- I. $3x^2 - 13x + 14 = 0$

II. $y^2 - 7y + 12 = 0$

Q.20 :- I. $2x^2 - 17x + 36 = 0$

II. $15y^2 - 16y + 4 = 0$

Present age of a man is four times more than his son and four yeas ago the age of man was nine times of the age of his son. Find the present age of the man?

एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र से चार गुना अधिक है और चार वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की नौ गुना थी । व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

(A)40

(B)32

(C)36

(D)48

(E)54



0:30

Two pipes A & B individually fill an empty tank in 15 hours and 45 hours respectively. A pipe C can empty the same tank in 30 hours. If all three pipes opened together in the tank, then in how many hours the tank will be filled completely?

दो पाइप A और B एकल रूप से एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। एक पाइप C उसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक में तीनों पाइप एकसाथ खोल दिए जाएं, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा।

- (A)24 (B)18 (C)12 (D)16 (E)20



A and B started a business by investing amount of Rs. 5000 & Rs. 15000 respectively. If after six months B left the business and the profit share of B is Rs. 600 after one year, then find the total profit?

A और B क्रमशः 5000 और 15000 रुपये की राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि छह महीने के बाद B ने व्यवसाय छोड़ देता है और एक वर्ष के बाद B का लाभ हिस्सा 600 रु है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए।

(A)900

(B)1250

(C)750

(D)1500

(E)1000

0:30

Average of four consecutive even numbers is 37 and average of four consecutive odd numbers is 30. Find difference between highest even number and second smallest odd number?

चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 है तथा चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। अधिकतम सम संख्या और दूसरी न्यूनतम विषम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A)13

(B)5

(C)9

(D)11

(E) 7



0:30

Speed of boat in upstream is 60% of the speed of boat in downstream. The speed of boat in still water is 6 km/hr more than the speed of stream. Find the total time taken by boat to cover 70 km in downstream and 30 km in upstream together?

धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल का 60% है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किमी / घंटा अधिक है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 70 किमी और धारा के प्रतिकूल 30 किमी की दूरी को मिलाकर कुल समय ज्ञात कीजिए।

(A)18

(B)10

(C)16

(D)12

(E)14

0:30

A train cross a pole in 25 seconds and a 240 meters long platform in 40 seconds. Find the length of the train?

एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 25 सेकण्ड और 240 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को 40 सेकण्ड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(A)250m

(B)200m

(C)300m

(D)400m

(E)350m



A alone can complete a work in 25 days and B alone can complete the same work in 15 days. If C is 60% less efficient than B, then find time taken by A and C together to complete the same work?

A अकेला एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और B अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि C, B से 60% कम कुशल है, तो A और C द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(A) 12

(B) 15

(C) 16

(D) 14

(E) 11

0:30

A man sells a chair at Rs.960 and earns a profit of 20%. If the man wants to sell it at a profit of 40%, then at what price he should sell the chair?

एक व्यक्ति एक कुर्सी को 960 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि व्यक्ति इसे 40% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसे कुर्सी को किस कीमत पर बेचना चाहिए?

(A) 1120

(B) 1020

(C) 1280

(D) 1200

(E) None of these



A borrowed Rs. P from B at 20% p.a. on compound interest annually. If A paid total amount of Rs.34,560 to B for settle his debt after three years, then find value of P?

A, B से प्रतिवर्ष 20% की दर से P रु वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज पर उधार लेता है। यदि A तीन वर्षों के बाद अपने ऋण का निपटान करने के लिए B को कुल 34,560 रुपये का भुगतान करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए।

(A)16000

(B) 24000

(C)20000

(D)15000

(E)25000

0:30

An amount is divided among A, B and C in the ratio of 1:4:3 respectively. If the amount received by C is Rs. 14,000 more than the amount received by A, then find the amount received by B?

एक राशि को A, B और C में क्रमशः 1:4:3 के अनुपात में विभाजित में किया जाता है। यदि C द्वारा प्राप्त राशि, A को प्राप्त राशि से 14,000 रु. अधिक है, तो B को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।

(A) 21000

(B) 10500

(C) 10000

(D) 28000

(E) 13500



The area of a rectangle is equal to the area of a square whose diagonal is $4\sqrt{6}$ cm. If the ratio of the length and width of the rectangle is 4:3, then find the perimeter of the rectangle?

एक आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण $4\sqrt{6}$ सेमी है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का परिमाण ज्ञात कीजिए।

(A) 20 cm

(B) 16 cm

(C) 28 cm

(D) 24 cm

(E) 32cm



What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

6 . $35\% \text{ of } 260 - 24\% \text{ of } 35 = ?$

(A)82.6

(B)81.6

(C)82.8

(D)80.6

(E)79.6



What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

7. $1176 - 60 \times 25\% = ?$

(A)1167

(B)1165

(C)1163

(D)1161

(E)1159



0:30

What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

8. $(? + 8^2) = 50\% \text{ of } 193$

(A)34.5

(B)30.5

(C)31.5

(D)32.5

(E) 36.5



0:30

What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

9. $48\% \text{ of } 125 + ?^3 = 185$

(A)5

(B)4

(C)7

(D)3

(E)6



0:30

What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

10. $128.48 + ? = 7^3 - \sqrt{484}$

(A)196.52

(B)188.52

(C)192.52

(D) 194.52

(E)186.52



What value should come in the place of question mark(?) in the following questions?

11. $(? \% \text{ of } 480) \div (4 \% \text{ of } 540) = 5.6$

(A) 25.2

(B) 27

(C) 21.6

(D) 24

(E) 23.4



What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

12. $2000 \div 50 \times 3 + 5 = (?)^3$

(A)5

(B)8

(C)9

(D)2

(E)3



0:30

What value should come in the place of question mark(?) in the following questions?

13. $343 + 243 + 512 = 20\% \text{ of ?}$

(A) 4590

(B) 5490

(C) 6490

(D) 6140

(E) 5290



What value should come in the place of question mark(?) in the following questions?

14. $264 \div 8 \times 12 + 224 - 64 = ?$

(A)450

(B)350

(C)465

(D)655

(E) None of these



What value should come in the place of question mark(?)in the following questions?

15. $4846 + 3454 + 5156 = ? + 11342$

(A)2114

(B)2314

(C)2144

(D)2014

(E)None of these



Bar graph given below shows total number of animals in four different zoos. Read the data carefully and answer the questions.

नीचे दिया गया बार ग्राफ चार अलग-अलग चिड़ियाघरों में जानवरों की कुल संख्या को दर्शाता है। आकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें।



Total number of animals in zoo E are $45\frac{5}{6}\%$ more than that of in zoo D, then find total animals in zoo E are what percent more than that of in zoo A?

चिड़ियाघर में जानवरों की कुल संख्या, चिड़ियाघर D की तुलना में $45\frac{5}{6}\%$ अधिक है, तो चिड़ियाघर E में कुल जानवरों की संख्या, चिड़ियाघर A में कुल जानवरों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

(A)84%


(B)72%

(C)96%

(D)70%

(E)62%

0:30




Find difference between average number of animals in zoo A & B and total number of animals in zoo D?

चिड़ियाघर A और B में जानवरों की औसत संख्या और चिड़ियाघर D में जानवरों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए ।

- (A)80 (B)75 (C)150 (D)50 (E)100

0:30



Total animals in zoo C are what percent of total animals in zoo A & B together?

चिड़ियाघर C में कुल जानवर, चिड़ियाघर A और B में मिलाकर कुल जानवरों का कितना प्रतिशत है?

(A)70%


(B)80%

(C)60%

(D)40%

(E)50%

0:30



If total animals in zoo G are 40% less than total number of animals in zoo C & D together, then find the ratio of total animals in zoo B to that of in ZOO G?

यदि चिड़ियाघर G में कुल जानवर, चिड़ियाघर C और D में मिलाकर कुल जानवरों की संख्या से 40% कम हैं, तो चिड़ियाघर B में कुल जानवरों का चिड़ियाघर G में कुल जानवरों से अनुपात ज्ञात कीजिए ।

(A)5:8


(B) 6:5

(C)5:4

(D)5:7

(E)5:6

0:30



Find total number of animals in all four zoos?

चारों चिड़ियाघरों में जानवरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 1100


(B) 1400

(C) 1500

(D) 1300

(E) 1200

0:30



THANKS

